



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 362]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 1981/कार्तिक 19, 1903

No. 362]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 1981/KARTIKA 19, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

ग्रह मंत्रालय

(कानून और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1981

सां०कां०वि० 584(अ).—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय सेवा (समूह बीमा) नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980” से वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कां०जा० सं०ए० 15(3) 78-इस्यू०आई०पी० ता० 31 अक्टूबर, 1980 के उपाखण्ड में ब्यौरेवार दी गई और अनुसूची में यथा उपबणित समूह बीमा स्कीम अभिप्रेत है;

(ख) “कुटुम्ब” का वही अर्थ होगा जो उसका अखिल भारतीय सेवा (प्रविष्य निधि) नियम, 1955 में है;

(ग) “स्कीम का सदस्य” से सेवा का वह सदस्य अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 के सदस्य के रूप में नामांकित है;

(घ) “सेवा का सदस्य” से अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 2 में यथा परिभाषित अखिल भारतीय सेवा का सदस्य अभिप्रेत है;

(ङ) “अनुसूची” से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(च) “राज्य सरकार” से—

(i) किसी राज्य काब्र की सेवा के सदस्य के संबंध में उस राज्य की सरकार;

(ii) किसी संयुक्त काब्र की सेवा के सदस्य के संबंध में गठन करने वाले राज्यों की सरकारें;

(iii) संघ राज्य क्षेत्रों के काब्र की सेवा के सदस्य के संबंध में केन्द्रीय सरकार; अभिप्रेत है;

(झ) “राज्य समूह बीमा स्कीम” से वह बीमा स्कीम अभिप्रेत है, उसका नाम जो भी हो, जो किसी राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रारम्भ की गई है।

3. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 का लागू होना :

(1) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 जैसी कि केन्द्रीय सिविल सेवा

समूह 'क' को लागू है, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस सेवा के सदस्यों को भी लागू होगी।

परन्तु इस सेवा का ऐसा सदस्य, जो 1 नवम्बर, 1980 को या उसके पूर्व सेवा में नियुक्त किया गया था, केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 में अभिदाय करने की अपनी राजांशदी या अन्यथा को व्यवस्त करते हुए ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएँ, अपने विकल्प का प्रयोग करेगा और ऐसा विकल्प एक बार प्रयोग किए जाने पर अन्तिम होगा और यदि वह विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि उसने केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 के लिए विकल्प दिया है।

परन्तु यह और कि—

- (i) सेवा के ऐसे सदस्य से, जिसने ऊपर परन्तु के अधीन केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा स्कीम के लिए विकल्प दिया है या उसके बारे में यह समझा गया है कि उसने विकल्प दिया है अभिदाय।
- (ii) ऐसे व्यक्ति से, जो 1 नवम्बर, 1980 के पश्चात भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम 1954 के नियम 8 के उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन या भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन या भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन सेवा में नियुक्त किया गया है।

यह अपेक्षा की जाएगी कि वह यदि किसी राज्य समूह बीमा स्कीम में अभिदाय कर रहा है तो ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे या तो राज्य समूह बीमा स्कीम में अभिदाय बाधु रखने का निर्वाचन करे या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 में अभिदाय का निर्वाचन करे और ऐसा निर्वाचन न करने पर वह राज्य समूह बीमा स्कीम में अभिदाय करना छोड़ देगा और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 के लिए विकल्प दिया है।

(2) सेवा के उस सदस्य को, जो स्कीम के सदस्य के रूप में नामांकित है, राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे तदनुसार सूचित किया जाएगा।

(3) स्कीम के अधीन अभिदायो का संग्रहण और शोध्यों का संवाय ऐसे अनुदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त जारी करे।

4. राज्य समूह बीमा स्कीम का लागू होना.— नियम 3 में यथा उपबन्धित के सिवाय सेवा का कोई सदस्य राज्य समूह बीमा स्कीम का सदस्य नहीं होगा।

5. अनुसूची का संशोधन.—केन्द्रीय सरकार सम्बद्ध राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात अनुसूची का संशोधन कर सकेगी।

6. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो केन्द्रीय सरकार उसका विनिर्णय करेगी।

अनुसूची

(नियम 3 देखिए)

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के का०भा०से० एफ० 15/3/78-उत्प०
श्रा००पी०, तारीख 31 अक्टूबर, 1980 का उपबंध

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980

प्रस्तावित होने की तारीख

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980, जिसे इसमें इसके पश्चात "स्कीम" कहा गया है, नवम्बर, 1980 को अधिसूचित की जाएगी और 1 जनवरी, 1982 के पूर्वार्द्ध से प्रवृत्त होगी।

उद्देश्य :

2. इस स्कीम का उद्देश्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कम लागत पर और पूर्णतः अभिदायी तथा स्वतः वित्तपोषण के आधार पर, सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में उनके कुटुम्बों की सहायता करने के लिए और सेवा निवृत्ति पर उनके साधनों के संवर्धन के लिए एकमुश्त रकम के संवाय के लिए व्यवस्था करना है।

लाभ होना :

3. "स्कीम" सभी सरकारी सेवकों को जिनके अंतर्गत महाद्व और वेरा सैनिक वर्गों के ऐसे सदस्यों को छोड़कर जिनके लिए पहले से ही उनकी अपनी एक पूयक स्कीम है रेल, डाकतार और रक्षा में के सरकारी सेवक भी हैं, को लागू होगी। इस स्कीम के अंतर्गत सिवा कर्मचारी, राज्य सरकारों पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अन्य स्वायत्त संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति विदेश स्थित भारतीय मिशनों में स्थानीय रूप से भर्ती किए गए कर्मचारी, नैमित्तिक मजदूर, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारी नहीं आयेंगे। "स्कीम" ऐसे व्यक्तियों को भी लागू नहीं होगी जो 50 वर्ष की आयु अभिप्राप्त करने के पश्चात केन्द्रीय सरकार के अधीन भर्ती किए गए हैं। ऐसे केन्द्रीय सरकारी सेवक, जिन्हें यह "स्कीम" लागू होती है, इसमें इसके पश्चात 'कर्मचारी' कहे जायेंगे।

सदस्यता :

4.1 यह "स्कीम" उन सभी "कर्मचारियों" के लिए अनिवार्य होगी जो "स्कीम" के अधिसूचित किए जाने के पश्चात केन्द्रीय सरकार की सेवा में प्रवेश करते हैं अर्थात् ऐसे सभी 'कर्मचारी' जो 1 नवम्बर, 1980 के पश्चात केन्द्रीय सरकार की सेवा में प्रवेश करते हैं अनिवार्य रूप से, उस तारीख से जिस तारीख को स्कीम प्रवृत्त होती है, स्कीम के अंतर्गत आयेंगे।

4.2 उन "कर्मचारियों" को, जो इस स्कीम के अधिसूचित किए जाने की तारीख की पहले से ही केन्द्रीय सरकार की सेवा में हैं, "स्कीम" के बाहर रहने का विकल्प होगा। इस विकल्प का प्रयोग 31 दिसम्बर, 1980 तक किया जाना चाहिए। वे कर्मचारी जो उस तारीख तक "स्कीम" से बाहर रहने का विकल्प नहीं देते हैं उनके संबंध में यह समझा जाएगा कि वे उस तारीख से जिस तारीख को "स्कीम" प्रवृत्त होती है, "स्कीम" के सदस्य हो गए हैं। एक बार प्रयोग किया गया (या न प्रयोग किया गया) विकल्प अन्तिम समझा जाएगा और आगे कोई पुनरावृत्ति उपलब्ध नहीं होगी।

4.3 "स्कीम" के प्रवृत्त हो जाने के पश्चात, वे सभी कर्मचारी, जो जनवरी से अगले किसी मास में सेवा में प्रवेश करते हैं, 'स्कीम' की प्रागामी प्राधिकारी पर, 'स्कीम' के सदस्य के रूप में अभ्यावेशित किए जायेंगे।

सदस्यों के लिए अभिदायन :

5.1 "स्कीम" के लिए अभिदायन बस दण्ड प्रतिमास की इकाइयों में होगा। समूह "ब" कर्मचारी एक इकाई का अभिदाय करेगा, समूह "ग" कर्मचारी दो इकाइयों का, समूह "ख" कर्मचारी चार इकाइयों का तथा समूह "क" कर्मचारी आठ इकाइयों का अभिदाय करेगा। इस प्रकार, "स्कीम" के किसी सदस्य के लिए अभिदाय की दर क्रमशः "ब", "ग", "ख" और "क" कर्मचारियों के लिए बस रूप, बीस रूप, बीस रूप और अस्सी रूप होगी।

5.2 किसी कर्मचारी की एक समूह से दूसरे समूह में नियमित रूप से पदोन्नति हो जाने की दशा में, उसका अभिदाय, "स्कीम" की प्रागामी प्राधिकारी से, जिस समूह में उसकी प्रोन्नति हुई है उस समूह के लिए समुचित

संरक्षित नहीं दिया जाएगा। जब तक 'स्कीम' की आगामी आधिकारी की तारीख नहीं आती है तब तक वह उसी रकम के लिए बीमा द्वारा रक्षित बना रहेगा। जिसके लिए वह ऐसी प्रीमियम के पूर्व पात्र था।

उदाहरण के लिए, यदि "स्कीम" 1 जनवरी, 1982 से प्रवृत्त होती है तो फरवरी, 1982 में नियमित आधार पर समूह "ग" में प्रोक्त किया गया समूह 'ब' कर्मचारी दिसम्बर, 1982 तक वस रूप प्रतिमास की दर पर अभिदाय करता रहेगा और अपने अभिदाय के लिए समुचित बचत निधि से प्राप्त होने वाले फायदों के साथ साथ केवल 10,000 रु० के बीमा रक्षण के लिए पात्र होगा जनवरी, 1983 से उसके अभिदाय की दर बढ़ाकर बीस रूप प्रतिमास कर दी जाएगी और वह बचत निधि से प्राप्त होने वाले फायदों के साथ साथ 20,000 रु० के बीमा रक्षण के लिए पात्र ही जाएगा।

सदस्यों से भिन्न कर्मचारियों के लिए प्रीमियम और बीमा रक्षण।

6. जनवरी, 1982 के पश्चात् आने वाले जनवरी से भिन्न किसी मास में सेवा में प्रवेश करने वाले "कर्मचारी" को, सरकारी सेवा में आने की तारीख से "स्कीम" की सदस्य बनने की तारीख तक प्रत्येक 10,000 रु० के बीमा रक्षण के लिए प्रीमियम के रूप में 3 रु० प्रतिमास के अभिदाय का संवाय करने पर समुचित बीमा रक्षण का फायदा दिया जाएगा।

उदाहरण के लिए, यदि यह स्कीम 1 जनवरी, 1982 से प्रवृत्त होती है और कोई समूह 'ब' कर्मचारी 1 फरवरी, 1982 में सेवा में प्रवेश करता है, दिसम्बर, 1982 तक 11 मास की अवधि के लिए 10,000 रु० के बीमा रक्षण के लिए प्रीमियम के रूप में 3 रु० प्रतिमास के अभिदाय का संवाय करेगा और जनवरी, 1983 से उसका अभिदाय बढ़ाकर 10 रु० प्रतिमास कर दिया जाएगा और वह 10,000 रु० के बीमा रक्षण के साथ साथ बचत निधि से प्राप्त होने वाले फायदों के लिए पात्र हो जाएगा। इसी प्रकार, फरवरी, 1982 से सेवा में प्रवेश करने वाला समूह "ग" कर्मचारी दिसम्बर, 1982 तक 11 मास की अवधि के लिए 20,000 रु० के बीमा रक्षण के लिए प्रीमियम के रूप में 6 रु० प्रतिमास के अभिदाय का संवाय करेगा और जनवरी, 1983 से उसका अभिदाय बढ़ाकर 20 रु० प्रतिमास कर दिया जाएगा और वह 20,000 रु० के बीमा रक्षण के साथ बचत निधि से प्राप्त होने वाले फायदों के लिए पात्र हो जाएगा।

सदस्यों के लिए बीमा निधि और बीमा रक्षण

7.1 "स्कीम" के प्रत्येक सदस्य को बीमा की सुविधा देने के लिए अभिदाय के एक अंश को केन्द्रीय सरकार के लोक लेखा में रखे जाने के लिए बीमा निधि में जमा कर दिया जाएगा। अभिदाय की प्रत्येक इकाई के लिए बीमा रक्षण की रकम 10,000 रु० होगी। यह रकम उन कर्मचारियों के कुटुम्बों को संरक्षित की जाएगी जिनकी बुध्दिवश, किसी भी कारण से सरकारी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है।

7.2 बीमा निधि में अनात्मक या अनात्मक प्रतिशेष, ऋणरहित बचत बैंक जमा के लिए विद्यमान ब्याज की दर पर जो इस समय 5-1/2 प्रतिशत प्रति वर्ष है, संगणित ब्याज की रकम के साथ यथास्थिति, जमा किया जाएगा या धटाया जाएगा।

बचत निधि:

अभिदाय का प्रतिशेष बचत निधि में जमा किया जाएगा। बचत निधि की रकम केन्द्रीय सरकार द्वारा लोक लेखा में रखी जाएगी। बचत का कुल संवयन उस पर ब्याज सहित, अधिवर्धित की प्राप्ति प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवा-निवृत्ति पर या केन्द्रीय सरकार के साथ उसके नियोजन की समाप्ति पर सदस्य को या सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके कुटुम्ब को संवय होगा।

8.2 बचत निधि में होने वाले फायदे इससे संलग्न दृष्टांत सारणी के अनुसार होंगे। यह फायदा दृष्टांत परक है और व्यवहार में, सारणी में

दक्षित रकम से अपेक्षाकृत अधिक या कम हो सकता है। यह सारणी प्रति हजार 3.75 की मृत्यु दर पर बीमा की लागत को दृष्टि अभिदाय में से धटाकर और उन पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के आधार पर सवार की गई है। यदि किसी भी समय ब्याज की दर में परिवर्तन होता है और/या बीमा की लागत में परिवर्तन होता है तो बचत निधि से उपलब्ध फायदों में भी तत्समान ही परिवर्तन हो जाएगा।

8.3 किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में, बीमा की रकम का संवाय, बचत निधि से संवाय के अतिरिक्त होगा।

8.4 बचत निधि में अनात्मक प्रतिशेष, उस प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अधिसूचित ब्याज की दर पर संगणित ब्याज की रकम में साथ जमा किया जाएगा।

8.5 इस स्कीम के प्रवृत्त होने की तारीख से प्रारम्भ होने वाली 5 वर्ष की ब्लॉक अवधि के लिए बचत निधि में प्रतिशेष पर ब्याज 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष (वार्षिक ब्याज वैसासिक होगा) की दर पर अनुज्ञान किया जाएगा।

अभिदाय की वसूली:

9.1 किसी मास के लिए किसी सदस्य का अभिदाय उस मास की प्रथम तारीख के सामान्य कार्य समय के प्रारम्भ होने पर शीघ्र हो जाएगा।

9.2 सरकारी सेवा में आने की तारीख से स्कीम की सदस्यता की तारीख तक, बीमा रक्षण के लिए प्रीमियम के रूप में अभिदाय, आर्थिक रूप में सेवा में आने की तारीख को शीघ्र हो जाएगा और तत्पश्चात् प्रत्येक मास की पहली तारीख को सामान्य कार्य समय के प्रारम्भ होने से शीघ्र हो जाएगा।

9.3 किसी मास का अभिदाय कर्मचारी के/की उस मास के/की वेतन/मजदूरी से, उस समय के/की वेतन/मजदूरी के वास्तविक संवाय की तारीख पर विचार किए बिना, वसूल किया जाएगा।

9.4 अभिदाय प्रत्येक मास में, जिसके अन्तर्गत वह मास भी है जिसमें कर्मचारी सेवा निवृत्ति, मृत्यु/त्याग पत्र, सेवा से हटाए जाने आदि के कारण नियोजन में नहीं रह जाता है, वसूल किया जाएगा।

9.5 उदाहरण और सवितरक अधिकारी, कर्मचारियों से, इस बात पर विचार किए बिना कि वे कर्तव्य पर हैं, छुट्टी पर हैं या मितन्वित हैं, अभिदाय की वसूली करेगा।

9.6 यदि अभिदायों के बकायों की वसूली, वेतन/मजदूरी के विलम्ब से किए गए संवाय के कारण नहीं हुई है तो उस पर ब्याज उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

9.7 यदि कोई "कर्मचारी" असाधारण छुट्टी पर है और किसी अवधि के लिए उसके वेतन/मजदूरी का संवाय नहीं किया गया है, तो उन मासों के लिए, जिन मासों में उसे किसी वेतन/मजदूरी का संवाय नहीं किया गया है उसके अभिदाय, जिस मास में वह छुट्टी के पश्चात् छुट्टी पर आता है, उसके आगामी मास से उसकी बचत निधि की अनुवृद्धियों पर "स्कीम" के अधीन अनुज्ञेय ब्याज सहित, तीन किस्तों में वसूल किया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी की असाधारण छुट्टी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उससे शीघ्र अभिदाय "स्कीम" के अधीन उसके कुटुम्ब को अनुज्ञेय संदायों से, बचत निधि की अनुवृद्धियों पर स्कीम के अधीन अनुज्ञेय ब्याज सहित, वसूल किए जाएंगे।

उदाहरण के लिए, यदि कोई समूह "ब" कर्मचारी 5-2-1982 से 4-12-1982 तक दस मास की असाधारण छुट्टी पर चला जाता है और मार्च, 1982 से नवम्बर 1982 तक एक भी दिन के लिए वेतन/मजदूरी का संवाय नहीं किया जाता है तो उसकी कुल 80 रु० का अभिदाय,

उस पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से चक्रवर्ती संगणित ब्याज सहित, जनवरी, 1983 से अधिक से अधिक तीन किस्तों में वसूल किया जाएगा।

9.8 यदि कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर अन्यथा सेवा पर चला जाता है तो उधार लेने वाले प्राधिकारी/अन्यथा नियोजक से अनुरोध किया जाएगा कि वह अभिदाय की वसूली करे और उसे सुसंगत सेवा शीर्ष में जमा करे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस आशय का एक आवश्यक खण्ड भविष्य में प्रतिनियुक्ति/अन्यथा सेवा के निबन्धनों में सम्मिलित कर लिया जाए। इस रकम की वसूली उसी रीति में की जाएगी जो छुट्टी वेतन और पेंशन अभिदाय की लागू है। यदि किसी भी समय अभिदाय की वसूली बकाया रह जाती है तो उसे बचत निधि की अनुवृद्धियों पर स्कीम के अधीन अनुज्ञेय ब्याज सहित, अधिक से अधिक तीन किस्तों में वसूल किया जाएगा।

साधारण/अभिदायी भविष्य निधि से अभिदायी का वित्त पोषण :

10.1 सामान्यतः किसी साधारण/अभिदायी भविष्य निधि से स्कीम का वित्त पोषण अनुज्ञेय नहीं होगा। फिर भी यदि किसी स्तर पर किसी व्यक्ति सदस्य की स्थिति उसे अनुज्ञात नहीं करती है कि वह "स्कीम" और साधारण अभिदायी भविष्य निधि में एक ही समय अभिदाय कर सके तो उसे, एक पृथक संयवहार के रूप में, स्कीम के लिए संदर्भ एक वर्ष के अभिदाय के समतुल्य रकम, साधारण/अभिदायी भविष्य निधि से अप्रतिवेय प्रत्याहरण के रूप में निकालने के लिए अनुज्ञा दी जा सके।

10.2 स्कीम के लिये अभिदाय, धायकर के प्रयोजनों के लिये, अभिदाता की कुल धाय की संगणना करने में, सिवाय उस सीमा तक जिस तक रकम ऐसे अभिदाय के लिए साधारण अभिदायी भविष्य निधि से अंतिम रूप में निकाली जाती है, जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि अभिदाय आदि की बाबत अनुज्ञेय कटौतियों का भाग रूप होगा।

बीमा निधि/बचत निधि से संवाय।

11.1 यदि कोई कर्मचारी अधिविशिष्टता की धार्य प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त हो जाता है या अन्यथा केन्द्रीय सरकार की सेवा में नहीं रह जाता है और उसकी सेवा पुस्तक से यह पता लगता है कि वह सेवा का सदस्य रहा है तो कार्यलय का प्रधान, प्ररूप सं० 4 में एक साधारण आवेदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् उसकी बचत निधि में सदस्य के संचयन के संवाय के लिये मंजूरी जारी करेगा।

11.2 यदि किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है और उसकी सेवा पुस्तक से यह पता लगता है कि वह स्कीम का सदस्य था तो कार्यलय का प्रधान प्ररूप सं० 5 में संबद्ध सरकारी सेवक के नाम निर्देशितियों/वारिसों को प्ररूप सं० 6 में एक आवेदन प्रस्तुत करने के लिये लिखेगा और उसके प्राप्त होने पर, उसे (उनको) बीमा की रकम तथा बचत बैंक में संचयन के संवाय के लिये मंजूरी जारी करेगा।

11.3 किसी ऐसे कर्मचारी के, जिसे केवल बीमा रक्षण का फायदा प्राप्त है, नाम निर्देशितियों/वारिसों को संवेय रकम, उसके समूह के लिये उपयुक्त बीमा की रकम होगी।

11.4 "स्कीम" के किसी ऐसे सदस्य के, जिसकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, नामनिर्देशितियों/वारिसों को संवेय रकम निम्नलिखित होगी—

(क) समुचित बीमा की वह रकम, जिसके लिये वह मृत्यु के समय हकदार था; धन

(ख) निम्नतम समूह में उसकी सदस्यता की सम्पूर्ण अवधि के लिये बचत निधि से उसे शोध्य रकम; और

(ग) उन अतिरिक्त इकाइयों के लिये उसकी शोध्य रकम या रकम या रकम, जिनके द्वारा उसका अभिदाय उच्चतर समूह में उसकी नियुक्ति/प्रोन्नति के कारण, प्रत्येक अवसर पर उस तारीख से जिससे उसके अभिदाय की दर

झाई गई थी, उसकी मृत्यु की तारीख तक की अवधि के लिये, बढ़ाया गया था।

उदाहरण के लिये, यदि समूह 'ब' का कोई कर्मचारी, जो स्कीम का सदस्य है क्रमशः 5 वर्ष और 15 वर्ष के पश्चात् समूह 'ग' और समूह 'घ' में सदस्यता अर्जित कर लेता है और इन सभी समूहों में कुल सदस्यता के 30 वर्ष के पश्चात् सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नामनिर्देशितियों का नाम निर्देशितियों को निम्नलिखित रकमों का संवाय किया जायेगा :—

(i) उसकी मृत्यु की तारीख को समूह 'ब' कर्मचारी होने के कारण 40 रु० के मासिक अभिदाय पर शोध्य 40,000 रु० की बीमा की रकम;

(ii) 30 वर्ष के लिये 10 रु० के मासिक अभिदाय पर बचत निधि से शोध्य रकम;

(iii) 25 वर्ष के लिये 10 रु० (20 रु०-10 रु०) के मासिक अभिदाय पर बचत निधि से शोध्य रकम; और

(iv) 15 वर्ष के लिये 20 रु० (40 रु०-20 रु०) के मासिक अभिदाय पर बचत निधि से शोध्य रकम।

11.5 ऐसे कर्मचारी को, जो पदत्याग, सेवा निवृत्ति आदि के कारण केन्द्रीय सरकार के नियोजन में नहीं रह जाता है, निम्नलिखित रकम संवेय होगी—

(क) निम्नतम समूह में उसकी सदस्यता की सम्पूर्ण अवधि के लिये बचत निधि से उसकी शोध्य रकम; और

(ख) उन अतिरिक्त इकाइयों के लिये उसकी शोध्य रकम या रकम, जिनके द्वारा उसका अभिदाय उच्चतर समूह में उसकी नियुक्ति/प्रोन्नति के कारण प्रत्येक अवसर पर उस तारीख से, जिससे उसके अभिदाय की दर बढ़ाई गई थी उसकी सदस्यता की समाप्ति की तारीख तक की अवधि के लिये बढ़ाया गया था।

उदाहरण के लिये, यदि कोई समूह 'ब' कर्मचारी, जो स्कीम का सदस्य है, क्रमशः 10 और 20 वर्ष की अवधि के पश्चात् समूह 'ग' और समूह 'घ' में सदस्यता अर्जित कर लेता है और इन सभी समूहों में कुल सदस्यता के 30 वर्ष के पश्चात् अधिविशिष्टता पर सेवा निवृत्त होता है तो उसे निम्नलिखित रकमों का संवाय किया जायेगा;

(i) 30 वर्ष के लिये 10 रु० के मासिक अभिदाय पर बचत निधि से उसकी शोध्य रकम;

(ii) 20 वर्ष के लिये 10 रु० (20-10 रु०) के मासिक अभिदाय पर बचत निधि से उसकी शोध्य रकम;

(iii) 10 वर्ष के लिये 20 रु० (40 रु०-20 रु०) के मासिक अभिदाय पर बचत निधि से उसकी शोध्य रकम।

11.6 यदि किसी कर्मचारी को किसी मास के दौरान, उस मास के लिये उसके अभिदाय की वसूली के पूर्व मृत्यु हो जाती है तो अभिदाय की कटौती करने के पश्चात् उसके शोध्यों का संवाय किया जायेगा।

11.7 यदि कोई कर्मचारी याव में अखिल भारतीय सेवा में कार्यभार ग्रहण करता है तो उसका मामला ऐसी रीति में विनियमित किया जायेगा जो वित्त मंत्रालय द्वारा विनिश्चित की जाये।

बीमा निधि/बचत निधि से रकम निकालना

12.1 स्कीम के किसी सदस्य या अन्य हितधायिका के लिए, उस बीमा निधि से, जिसमें वह अभिदाय करता रहा है, कोई रकम निकालना अनुज्ञेय नहीं होगा। स्कीम के किसी सदस्य की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर, निधि से उसकी शोध्य रकम की गणना पैरा 11 के अनुसार की जाएगी और उसके नाम निर्देशित (निर्देशितियों) को पृथक रूप से विहित सेवा प्रक्रिया के अनुसार संवेय की जाएगी।

12.2 स्कीम के किसी सदस्य या अन्य हितधारिकारी के लिए छत्र बचत निधि से भी जिसमें वह अभिधान करता रहा है, कोई रकम निकालना अनुज्ञेय नहीं होगा। पब त्याग, सेवानिवृत्ति आदि के कारण उसके नियोजन की समाप्ति पर, निधि से उसको शोध्य रकम की गणना पैरा 11 के अनुसार की जाएगी और उसके नामनिर्देशिनी (निर्देशितियों) को पृथक रूप से विहित लेखा प्रक्रिया के अनुसार संवत् की जाएगी।

बीमा निधि/वचन निधि में सचयनों से या उनके आधार पर उधार/अग्रिम :

13. स्कीम के किसी भी सदस्य या अन्य हितधारिकारी को उस बीमा निधि/बचत निधि से या उसके आधार पर, जिससे वह अभिवाय करता रहा है, किसी भी उधार या अग्रिम का भुगतान नहीं किया जाएगा।

बीमा निधि/अविध्य निधि में सचयनों का उपभोग :

14. बीमा निधि/बचत निधि में के संचयन केन्द्रीय सरकार के व्यक्ताधीन होंगे। यह "स्कीम" पूर्णतः स्वतः वित्तपोषित और स्वतः समर्थित है अतः यह प्रस्ताव है कि इन संचयनों के अधिकांश भाग का उपयोग स्कीम के सदस्यों के फायदे के लिए स्वामित्व प्रावसिक स्कीमों और अन्य स्कीमों के लिए किया जाए।

स्कीम अधिसूचित करने की रीति :

15. "स्कीम" कर्मचारियों को उसकी एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका कर या जहाँ ऐसे नोटिस बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, वहाँ उस परिसर के, जहाँ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, प्रमुख स्थान पर चिपका कर अधिसूचित की जाएगी। स्कीम की कुछ प्रतियाँ कर्मचारियों के माध्यमता-प्राप्त/संघों संगमों की भी दी जाएगी।

स्कीम की अधिसूचना पर कार्रवाई :

16. उस मास के, जिसमें स्कीम अधिसूचित की जाती है, आगामी प्रत्येक मास की 10 तारीख तक, कार्यालय का प्रधान आह्वरण और संवितरण अधिकारी को ऐसे व्यक्तियों के नाम, समूह जिनकी तारीख और नियुक्ति की तारीख बनाएगा, जो गत मास के दौरान केन्द्रीय सरकार की किसी सेवा या पब पर नियुक्त किए जाते हैं और स्कीम के पैरा 3 के निबन्धनों के अनुसार स्कीम के सदस्य बनाने के लिए पात्र है।

प्रवृत्त होने वाली स्कीम पर कार्रवाई :

17.1 उस मास की, जिसमें स्कीम प्रवृत्त होती है, 10 तारीख तक कार्यालय का प्रधान ऐसे प्रत्येक कर्मचारी का जो स्कीम के अधिसूचित किए जाने की तारीख को केन्द्रीय सरकार की सेवा में था, किन्तु जिसने स्कीम से बाहर रहने का विकल्प नहीं लिया है नाम, समूह और जन्म की तारीख उपबोधित करते हुए एक विवरण आह्वरण और संवितरण अधिकारी को दे देगा।

17.2 स्कीम के प्रत्येक सदस्य को प्ररूप सं० 1 में उसके अभ्यावेदन की तारीख कटीती किया जाने वाला अभिवाय और वे फायदे जिसके लिए वह पात्र होगा सूचित किए जाएंगे। एक समूह से दूसरे में उसकी नियमित प्रोन्नति पर उसे समान रूप से प्ररूप सं० 2 में सूचित किया जाएगा।

17.3 ऐसे कर्मचारियों द्वारा दिया गया विकल्प जो स्कीम अधिसूचित किए जाने की तारीख को, पहले से ही केन्द्रीय सरकार की सेवा में थे, प्ररूप सं० 3 में होगा और संबद्ध व्यष्टि की सेवा पुस्तक में चिपकाया जाएगा।

सदस्यों का रजिस्टर

18 कार्यालय का प्रधान यह सुनिश्चित करेगा कि प्ररूप सं० 9 में समूह के अनुसार सदस्यों का रजिस्टर रखा जाता है और उसके अद्यतन

रखा जाता है। यह रजिस्टर वर्ष में एक बार संबन्धित आ०सं०आ० को यह सत्यापित करने के लिए कि ऐसे सभी कर्मचारियों से जो स्कीम के अधीन बीमा निधि में या बीमा निधि और बचत निधि दोनों में सम्मिलित हुए हैं समुचित अभिदाय की कटीती की जा रही है, और इस आशय का एक प्रमाण पत्र देने के लिए, भेजा जाएगा।

नाम निर्देशन :

19.1 कार्यालय का प्रधान, प्रत्येक ऐसे सरकारी कर्मचारी से, जो स्कीम का सदस्य है, अभिधान की आयु अभिप्राप्त करने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में, स्कीम के अधीन संवेय होने वाले रकम को प्राप्त करने का अधिकार एक या अधिक व्यक्ति को प्रदान करने वाला नाम निर्देशन अभिप्राप्त करेगा। ऐसे कर्मचारियों की दशा में, जो स्कीम अधिसूचित किए जाने की तारीख को पहले से ही केन्द्रीय सरकार की सेवा में हैं और जो स्कीम से बाहर रहने का विकल्प नहीं देते हैं, ऐसा नाम निर्देशन अन्य कर्मचारियों से अभिप्राप्त विकल्पों के साथ-साथ अधिप्राप्त किया जाएगा और ऐसे कर्मचारियों की दशा में जो स्कीम अधिसूचित किए जाने की तारीख के पश्चात् केन्द्रीय सरकार की सेवा में आते हैं ऐसा नाम निर्देशन उनके कार्यरम्भ की रिपोर्ट के साथ अभिप्राप्त किया जाएगा।

19.2 यदि स्कीम का कोई सदस्य अवयस्क है तो उसने अपेक्षा की जाएगी कि वह वयस्क हो जाने पर नाम निर्देशन करे।

19.3 यदि नामनिर्देशन करने के समय स्कीम के सदस्य का कुटुम्ब है तो वह अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में ही नामनिर्देशन करेगा। इस प्रयोजन के लिए, कुटुम्ब का वही अर्थ होगा जो साधारण अविध्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 में उसका है।

19.4 यदि कोई सदस्य पैरा 19.1 के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करता है तो उसे नाम निर्देशन में प्रत्येक नामनिर्देशिनी को संवेय हिस्से की रकम इस प्रकार से विनिर्दिष्ट करनी चाहिए कि जिससे स्कीम के अधीन संवेय संपूर्ण रकम उसमें समाविष्ट हो जाए, जिसके न हो सकने पर स्कीम के अधीन संवेय रकम सभी नाम निर्देशितियों के बीच समान हिस्सों में संवितरित हो जाएगी।

19.5 नाम निर्देशन, प्ररूप सं० 7 या प्ररूप सं० 8 में जैसा परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हो, किया जाएगा।

19.6 स्कीम का सदस्य, किसी भी समय, उपयुक्त उपबन्ध के अनुसार किए गए नए नाम निर्देशन के साथ, कार्यालय के प्रधान को सूचना भेज कर, नाम निर्देशन रद्द कर सकेगा।

19.7 सदस्यों से प्राप्त नामनिर्देशन कार्यालय के प्रधान द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित किए जाएंगे और उनकी सेवा पुस्तको में चिपकाए जाएंगे। कार्यालय का प्रधान सेवा पुस्तक में यह प्रविष्टि भी करेगा कि नामनिर्देशन सम्यक रूप से प्राप्त हो गया है।

विद्यमान बीमा स्कीम :

20. व्यय विभाग के का० आ०सं० 60/14/77 आई सी, तारीख 23 जून 1977 द्वारा पुरस्थापित विद्यमान बीमा स्कीम, उन कर्मचारियों के लिए जो 1-11-1980 को सेवा में थे और यदि वे नई स्कीम से बाहर रहने का विकल्प देते हैं तो तब तक बनी रहेगी। जब तक वे सेवानिवृत्ति पदत्याग, मृत्यु आदि के कारण, केन्द्रीय सरकार के नियोजन में नहीं रह जाते हैं। जहाँ तक अन्य कर्मचारियों की बात है नई स्कीम विद्यमान स्कीम को 1-1-1982 से प्रतिस्थापित कर देगी और वह रकम, जो विद्यमान बीमा स्कीम के अधीन उनको तब शोध्य होती तब वे उस दिन के, जिस दिन को वे नई स्कीम के सदस्य बन जाते हैं, पूर्ववर्ती दिन के अपराह्न में केन्द्रीय सरकार के नियोजन में रह जाते, उनके अपने-अपने अविध्य निधि खाता में जमा कर दी जाएगी।

लोकप्रचारण :

21. इस स्कीम से संबंधित संबंधित का हिसाब पुथक रूप से अधिकृत प्रक्रिया के अनुसार रखा जाएगा।

निर्बंधन और स्पष्टीकरण :

22.1 यदि कर्मचारियों का कोई प्रवर्ग, विनिर्दिष्ट रूप से समूह अ, समूह ग या समूह ब के रूप में वर्गीकृत नहीं है तो उसका वर्गीकरण इस संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, निर्णय और अपील) नियम, 1965 के अधीन अधिकृत सिद्धान्तों के अनुसार माना जाएगा।

- 22.2 स्कीम के वस्तुतः क्रियान्वयन में, यदि इस स्कीम के किसी उपबन्ध के निर्बंधन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न होती है या यदि किसी विषय पर स्पष्टीकरण अपेक्षित है तो मामले वित्त मंत्रालय को विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

स्कीम का पुनर्विलोकन :

25. प्रत्येक तीन वर्षों में "स्कीम" का पुनर्विलोकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि स्कीम स्वतः वित्तपोषण और स्वतः समर्थित बनी रहती है।

सारणी**केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980**

यदि ब्याज की दर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष हो तो बचत निधि में जमा की गई रकम

उन वर्षों की संख्या जिनमें अभिदाय संवत् किया गया	82.50 रुपए की शुद्ध वार्षिक बचत (10 रुपए प्रति मास अभि- दाय के समरूप)	165 रुपए की शुद्ध वार्षिक बचत (20 रुपए प्रति मास अभिदाय के समरूप)	330 रुपए की शुद्ध वार्षिक बचत (40 रुपए प्रति मास के अभिदाय के समरूप)	660 रुपए की शुद्ध वार्षिक बचत (80 रुपए प्रति मास अभिदाय के समरूप)
	रु०	रु०	रु०	रु०
5	528	1,056	2,112	4,224
10	1,380	2,760	5,520	11,040
15	2,750	5,500	11,000	22,000
20	4,958	9,916	19,832	39,664
25	8,513	17,026	34,052	68,104
30	14,239	28,478	56,956	1,13,912
35	23,460	46,920	93,840	1,87,680
40	38,311	76,622	1,53,244	3,06,488

(प्रथम संख्या 1)**भारत सरकार**

मंत्रालय
विभाग/कार्यालय
तारीख.....
ज्ञापन

श्री
जो समूह के कर्मचारी हैं को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 के संबंध के रूप में से अभ्यावेष्टित किया गया है। रुपये (..... रुपये) का उसका मासिक अभिदाय के मास से प्रारंभ उसके बेटन/मजदूरी से काटा जायेगा और वह से समूह के लिये समुचित स्कीम के फायदों का पात्र होगा।

(कार्यालय का प्रधान)

सेवा में *.....

*कर्मचारी का नाम और पदनाम

(प्रथम संख्या 2)

भारत सरकार

मंत्रालय

विभाग/कार्यालय

तारीख

ज्ञापन

श्री को
से समूह से समूह में (तारीख) नियमित

आधार पर प्रोत्तित किया गया है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 के लिये उसका मासिक अभिदाय के मास से रु० से बढ़कर रुपये हो जायेगा और वह तारीख से समूह के लिये समुचित स्कीम के फायदों का पात्र हो जायेगा।

(कार्यालय का प्रधान)

सेवा में

कर्मचारी का नाम और पदनाम

(प्रथम संख्या 3)

सेवा में,

कार्यालय का प्रधान

महोदय,

मैंने नई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 के बारे में पढ़ और समझ लिये हैं। मुझे स्पष्ट रूप से बता दिये गये हैं :
मैं इस नई स्कीम से बाहर रहने का विकल्प देता हूँ।

भवदीय

[.....]

कर्मचारी का नाम तथा पदनाम

स्थान:

तारीख:

प्ररूप संख्या 4

सेवा में,

सेवा में,

.....
..... *

विषय:

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 के अधीन संश्लित रकम के संदाय के लिये आवेदन ।

महोदय,

मैं, ** से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 का सदस्य रहा हूँ । मैं वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवा से निवृत्त हो गया हूँ/मैं वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवा से निवृत्त हो गया हूँ । मैं से केन्द्रीय सरकार की सेवा में नहीं रह गया हूँ । मैं सेवा निवृत्ति/केन्द्रीय सरकार की सेवा छोड़ने से पूर्व के पत्र का धारक था । मैं अनुरोध करता हूँ कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम के अन्तर्गत मुझे शोध्य रकम का संदाय कर दिया जाये ।

भवदीय

()

*कार्यालय के प्रधान का पदनाम और पता

**बहु मास और वर्ष उपवर्षित किया जाये जिसमें वह स्कीम का सदस्य बना हो ।

प्ररूप संख्या 5

संख्या

भारत सरकार

..... मंत्रालय

..... विभाग

..... कार्यालय

तारीख

सेवा में,
.....
..... *

विषय:— केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 के अधीन शोध्य रकम का संदाय ।

प्रिय श्री

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वर्गीय श्री ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 के अधीन शोध्य रकम के पूर्ण भाग/..... प्रतिशत के संदाय के लिए आपको नाम निविष्ट किया है। आपसे अनुरोध है कि संदाय की व्यवस्था करने के लिए आप संलग्न प्ररूप 6 में आवेदन प्रस्तुत करें।

भवदीय

()

*नाम निविष्ट व्यक्ति का नाम और पता

प्ररूप संख्या 6

सेवा में,

.....
..... *

विषय:— केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 के अधीन स्वर्गीय श्री को शोध्य रकम के संदाय के लिए आवेदन ।

महोदय,

आपके तारीख के पत्र संख्यांक के सन्दर्भ में, मैं अनुरोध करता/करती हूँ कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम के अधीन स्वर्गीय श्री/श्रीमती को शोध्य रकम के पूर्ण भाग/..... प्रतिशत का संदाय मुझे किया जाए ।

भवदीय

()

*जिस कार्यालय से प्ररूप संख्या 5 प्राप्त होता है उसका नाम और पता

प्ररूप संख्या 7

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 के अधीन फायदों के लिए नामनिर्देशन जब सरकारी कर्मचारी का कोई कुटुम्ब नहीं है और वह एक व्यक्ति या एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों को नाम निविष्ट करता चाहता है।

मैं, अपना कोई कुटुम्ब न होने के कारण, नीचे उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को नाम निविष्ट करता हूँ और उसे/उन्हें उस रकम का जो सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु हो जाने की स्थिति में केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 के अधीन स्वीकृत की जाए या जो मेरी अविधिविता की आयु प्राप्त करने पर, मेरी मृत्यु हो जाने के समय संवैय होते हुए प्रसवत रह जाए, नीचे निविष्ट सीमा तक प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ ।

नाम निविष्ट व्यक्तियों के नाम और पता/पते

सरकारी कर्मचारी के साथ उसकी नातेदारी

आयु

- 1.
- 2.
- 3.

*प्रत्येक को संवत्त की जाने वाली रकम का शेषर	ऐसी विशेष आकस्मिकताएं जिनके होने पर नामनिर्देशन अधिविध मान्य हो जाएगा**	ऐसे व्यक्ति का यदि कोई हो, नाम, पता तथा नातेबारी जिसे नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का अधिकार उसकी सरकारी कर्मचारी से पहले मृत्यु होने की स्थिति में प्राप्त हो जाएगा।
--	---	--

तारीख .

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

- 1.
- 2.

सरकारी कर्मचारी के
हस्ताक्षर

टिप्पणी . सरकारी कर्मचारी को अपनी अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर रेखा खींच देनी चाहिए जिससे उनके हस्ताक्षर करने के पश्चात् किसी और नाम का अंतःस्थापन न किया जा सके।

* इस स्तम्भ को इस प्रकार पूरा किया जाना चाहिए जिससे कि बीमा स्कीमों के अधीन जो राशि संवेद्य हो, उसे संपूर्ण रूप से समाविष्ट किया जा सके।

** जहाँ कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसका कुटुम्ब नहीं है नाम निर्देशन करना है वहाँ वह इस स्तम्भ में यह विनिर्दिष्ट करेगा कि उसका बाप में कुटुम्ब होने पर यह नाम निर्देशन अधिविधमान्य हो जाएगा।

प्रकरण संख्या 8

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 के अधीन फायदों के लिए नाम निर्देशन जब किसी सरकारी कर्मचारी का कुटुम्ब है और वह एक संवेद्य भव्यता एक से अधिक संवेद्यों को नामनिर्दिष्ट करना चाहता है।

मैं (नीचे उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को जो मेरे कुटुम्ब का संवेद्य है/के संवेद्य हों को नाम निर्दिष्ट करना हूँ और उसे/उन्हें उस रकम की जो सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु हो जाने की स्थिति में केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 के अधीन स्वीकृत की जाए या जो मेरी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर मेरी मृत्यु हो जाने के समय संवेद्य होते हुए संवेद्य रह जाए, नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ।

नामनिर्दिष्ट व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता/पते*	ऐसी विशेष आकस्मिकताएं जिनके होने पर नामनिर्देशन अधिविधमान्य हो जाएगा	ऐसे व्यक्ति का, यदि कोई हो, नाम पता तथा नातेबारी जिसे नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का अधिकार/उसकी सरकारी कर्मचारी से पहले मृत्यु होने की स्थिति में प्राप्त हो जाएगा।
---	--	--

टिप्पणी — सरकारी कर्मचारी को अपनी अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर रेखा खींच देनी चाहिए जिससे कि उनके हस्ताक्षर करने के पश्चात् किसी और के नाम का अंतःस्थापन न किया जा सके।

तारीख .

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

- 1.
- 2.

(सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर)

* इस स्तम्भ को इस प्रकार पूरा किया जाना चाहिए जिससे बीमा स्कीम के अधीन जो रकम संवेद्य हो, उसे संपूर्ण रूप से समाविष्ट किया जा सके।

प्रकृष संख्या 9

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980

सदस्यों का रजिस्टर

अनुभाग I—ऐसे कर्मचारियों की विनिष्टियां जो केवल समूह बीमा निधि में अभिदाय कर रहे हैं।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	जन्म की तारीख	नियुक्ति की तारीख	अभिदाय प्रारम्भ करने की तारीख	उच्चतर समूह में प्रोन्नति की तारीख/ अन्य विभागों को स्थानान्तरण किए जाने की तारीख	मृत्यु की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अनुभाग II—ऐसे कर्मचारियों की विनिष्टियां जो बीमा निधि और बचत निधि दोनों में अभिदाय कर रहे हैं।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	जन्म की तारीख	नियुक्ति की तारीख	अभिदाय प्रारम्भ करने की तारीख	उच्चतर समूह में प्रोन्नति की तारीख/ अन्य विभागों को स्थानान्तरण किए जाने की तारीख	सदस्यता समाप्त की तारीख और समाप्ति के कारण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

सेवा में

[सं० 11024/1/81-ए आई एस II]

श्रीमति बिन्ता जोषडा, उपसचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 1981

G.S.R. 584(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the All India Services (Group Insurance) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

932 GI/81—2

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- "Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980" means the Group Insurance Scheme detailed in the Annexure to the Ministry of Finance (Department of Expenditure) O.M. No. F. 15(3)/78-WIP dated the 31st October, 1980, and as set out in the Schedule.
- "Family" shall have the meaning assigned to it in the All India Services (Provident Fund) Rules, 1955;
- "Member of the Scheme" means a member of the Service enrolled as a member of the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980;
- "Member of the Service" means a member of an All India Service as defined in section 2 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951);

(e) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;

(f) "State Government" means,—

(i) in relation to a member of the Service borne on a State Cadre, the Government of that State;

(ii) in relation to a member of the Service borne on a Joint Cadre, the Government of the constituent State; and

(iii) in relation to a member of the Service borne on the Cadre of Union Territories; the Central Government;

(g) "State Group Insurance Scheme" means an insurance scheme, by whatever name it may be called, introduced by a State Government in the case of State Government servants.

3. Application of Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980.—(1) Subject to the provisions of these rules, the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980, as applicable to the officers of Central Civil Services Group 'A' shall *mutatis mutandis* apply to the members of the Service:

Provided that a member of the Service who was appointed to the Service on or before the 1st November, 1980, shall exercise an option in such form and within such time as may be specified by the Central Government in this behalf expressing his willingness or otherwise to subscribe to the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 and such option once exercised shall be final and in case he does not exercise such option he shall be deemed to have opted for the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980:

Provided further that—

(i) a member of the Service who has opted, or deemed to have opted, for the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980, under the above proviso, or

(ii) a person appointed to the service after the 1st November, 1980, under sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 or under sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, or under sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966,

shall be required, if he is subscribing to a State Group Insurance Scheme, to elect in such form and within such time as the Central Government may specify in this behalf either continue to subscribe to the State Group Insurance Scheme or to subscribe to the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 and in the absence of such election he shall cease to subscribe to the State Group Insurance Scheme and shall be deemed to have opted for the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980.

(2) A member of the Service enrolled as a member of the Scheme shall be informed accordingly by the State Government in such form as may be specified by the Central Government in this behalf.

(3) The collection of subscription and payment of dues under the Scheme shall be regulated by such instructions as may be issued by the Central Government in this behalf.

4. Application of State Group Insurance Scheme.—Save as provided in rule 3, a member of the Service shall not be a member of a State Group Insurance Scheme.

5. Amendment of Schedule.—The Central Government may, after consultation with the Governments of the States concerned, amend the Schedule.

6. Interpretation.—If any question arises as to the interpretation of these rules, the Central Government shall decide the same.

SCHEDULE

(See rule 3)

Annexure to the Ministry of Finance (Department of Expenditure) O.M. No. F. 15(3)/78-WIP, dated the 31st October, 1980

CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES GROUP INSURANCE SCHEME, 1980

Date of effect:

The Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980, hereinafter referred to as the "Scheme" shall be notified on 1 November, 1980 and shall come into force with effect from the forenoon of 1 January, 1982.

Objective:

2. The 'Scheme' is intended to provide for the Central Government employees, at a low cost and on a wholly contributory and self-financing basis, the twin benefits of an insurance cover to help their families in the event of death in service and a lump-sum payment to augment their resources on retirement.

Application:

The 'scheme' shall apply to all Central Government servants including those in the Railways, Posts and Telegraphs and Defence except members of the armed and para-military forces who have already a separate scheme of their own. Contract employees, persons on deputation from State Governments, public sector undertakings, or other autonomous organisations, locally recruited staff in the Indian Missions abroad, casual labourer, part-time and ad-hoc employees will not be covered by the 'scheme'. The 'scheme' will also not apply to persons recruited under the Central Government after attaining the age of 50 years. Such Central Government servants to whom the 'scheme' applies will hereafter be referred to as 'employees'.

Membership:

4.1 The 'scheme' will be compulsory for all those 'employees' who enter Central Government service after the 'scheme' is notified, i.e. all those 'employees' entering Central Government service after 1 November, 1980 will be compulsorily covered under the 'scheme' from the date it comes into force.

4.2 Those 'employees' who are already in Central Government service on the date the 'scheme' is notified will have an option to opt out of the 'scheme'. This option should be exercised by 31 December, 1980. Those 'employees' who do not opt out of the 'scheme' by that date will be deemed to have become members of the 'scheme', from the date the 'scheme' comes into force. The option, once exercised (or 'not exercised') will be treated as final and no further choice will be available.

4.3 After the 'scheme' has come into force all 'employees' who enter service in a month other than January shall be enrolled as members of the 'scheme' on the next anniversary of the 'scheme'.

Subscription for members:

5.1 The subscription for the 'scheme' will be in units of Rs. 10 per month. A Group D employee will subscribe for one unit, a Group C employee for 2 units, a Group B employee for 4 units and a Group A employee for 8 units. Thus, the rate of subscription for a member of the 'scheme' shall be Rs. 10, Rs. 20, Rs. 40, and Rs. 80 per month for Group D, C, B and A employees respectively.

5.2 In the event of regular promotion of an employee from one Group to another, his subscription shall be raised, from the next anniversary of the 'scheme', to the level appropriate to the Group to which he is promoted. Until the date of the next anniversary of the 'scheme' he shall continue to be covered for insurance for the same amount for which he was eligible before such promotion.

For example, if the 'Scheme' comes into force w.e.f. 1 January, 1982, a Group D employee promoted on regular basis to Group C in February, 1982 shall continue to subscribe at the rate of Rs. 10 per month upto December, 1982 and be eligible for the insurance cover of Rs. 10,000 only in addition to the benefits from the Savings Fund appropriate to his subscription. From January 1983, his subscription will be raised to Rs. 20 per month and he will become eligible for an insurance cover of Rs. 20,000 in addition to appropriate benefits from the Savings Fund.

Premium and insurance cover for 'employees' other than members :

6. The 'employees' entering service in a month other than January falling after January 1982 will be given benefit of appropriate insurance cover from the date of joining Government service to the date of their becoming members of the 'scheme' on payment of a subscription of Rs. 3 per month as the premium for every Rs. 10,000 of the insurance cover. From the date of anniversary of the 'scheme' they will pay subscription at the rate indicated in para 5.1 above

For example, if the 'scheme' comes into force w.e.f. 1 January, 1982, a Group D employee entering service in February 1982 shall pay a subscription of Rs. 3 per month as premium for an insurance cover of Rs. 10,000 for a period of 11 months until December 1982 and from January 1983 his subscription will be raised to Rs. 10 per month and he shall become eligible for the benefits from Savings Fund in addition to the insurance cover of Rs. 10,000. Similarly, a Group C employee entering service in February 1982 will pay a subscription of Rs. 6 per month as the premium for an insurance cover of Rs. 20,000 for a period of 11 months upto December, 1982 and from January 1983 his subscription will be raised to Rs. 20 per month and he shall become eligible for the benefits from the Savings Fund in addition to insurance cover of Rs. 20,000.

Insurance Fund and insurance cover for members :

7.1 In order to provide an insurance cover to each member of the 'scheme' a portion of the subscription shall be credited to an Insurance Fund to be held in the Public Account of the Central Government. The amount of insurance cover will be Rs. 10,000 for each unit of subscription. It will be paid to the families of those 'employees' who unfortunately die, due to any cause, while in Central Government service.

7.2 The positive or negative balance under the Insurance Fund shall be credited or debited, as the case may be, with the amount of interest calculated at the prevailing rate of interest on the Post Office savings bank deposits, which at present is 5-1/2 per cent per annum.

Savings Fund :

8.1 The balance of the subscription shall be credited to a Savings Fund. The amount in the Savings Fund will be held by the Central Government in Public Accounts. The total accumulation of savings together with interest thereon will be payable to the member on his retirement after attaining the age of superannuation or on cessation of his employment with the Central Government or to his family on his death while in service.

8.2 The benefits from the Savings Fund will be as per illustration table attached herewith. This benefit is illustrative and in practice could be a little more or less than the amount shown in the table which has been constructed on the basis of individual's subscription reduced by the cost of insurance at mortality rate of 3.75 per thousand and the compound interest of 10 per cent thereon. If at any time the rate of interest changes and/or the cost of insurance changes the benefits available from the Savings Fund will also change correspondingly.

8.3 In the case of death of a member the payment of the amount of Insurance will be in addition to the payment from the Savings Fund.

8.4 The positive balance under the Savings Fund shall be credited with the amount of interest calculated at the rate of

interest notified by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, for the purpose.

8.5 Interest will be allowed at 10 per cent per annum (compounded quarterly) on the balances in the Savings Fund for a block of 5 years commencing from the date the scheme comes into force.

Recovery of subscription :

9.1 The subscription of a member for a month shall fall due at the commencement of the normal working hours on the first of that month

9.2 The subscription as a premium for the insurance cover from the date of joining Government service to the date of membership of the 'scheme' shall initially fall due from the date of joining and subsequently from the commencement of normal working hours of the first of every month.

9.3 The subscription for a month shall be recovered by deduction from the salary/wage of the 'employee' for that month irrespective of the date of actual payment of salary/wage for that month.

9.4 The subscriptions shall be recovered every month including the month in which the 'employee' ceases to be in employment on account of retirement, death, resignation removal from service etc.

9.5 The Drawing and Disbursing Officer shall recover the subscription from the 'employees' irrespective of their being on duty, leave or suspension.

9.6 No interest shall be levied on arrears of subscriptions if the non-recovery is due to delayed payments of salary/wage.

9.7 If an 'employee' is on extraordinary leave and there is no payment of his salary/wage for any period, his subscriptions for the months for which no payments of salary/wage are made to him shall be recovered with interest admissible under the 'scheme' on the accretions to the Saving Fund in not more than three instalments commencing from his salary/wage for the months following the month in which he resumes duties after leave. If an 'employee' dies while on extraordinary leave the subscriptions due from him shall be recovered with interest admissible under the 'scheme' on the accretions to the Savings Fund from the payments admissible to his family under the 'scheme'.

For example, if a Group D employee proceeds on ten months' extraordinary leave from 5-2-1982 to 4-12-1982 and no salary/wage is paid to him for any day for March 1982 to November 1982, his subscriptions totalling Rs. 80 will be recovered together with the interest calculated at the compound rate of interest of 10 per cent per annum in not more than three instalments commencing from January 1983.

9.8 If an 'employee' proceeds on deputation or on foreign service, the borrowing authority/foreign employer shall be requested to effect the recovery of the subscription and credit the same to the relevant head of account. It shall be ensured that the necessary clause to this effect is included in the terms of deputation/foreign service in future. The recovery of this amount will be watched in the same manner as applicable to leave salary and pension contribution. If at any time the recovery of subscription falls in arrears, the same shall be recovered with interest admissible under the 'scheme' on the accretions to the Savings Fund in not more than three instalments

Financing of subscription from General/Contributory Provident Fund :

10.1 It will not ordinarily be permissible to finance the "scheme" from the General/Contributory Provident Fund. However, if at any stage the position of an individual member does not permit him to subscribe to the 'scheme' and to the General/Contributory Provident Fund at the same time, he may be permitted to make, as a separate transaction, a non-refundable withdrawal from the General/Contributory Provident Fund of an amount equivalent to a year's subscription paid for the 'scheme'.

10.2 The subscription to the 'scheme' will form part of deductions allowable in respect of life insurance premia, contributions to provident fund etc., in computing the total income of the subscriber for the purposes of income-tax, except to the extent of the amount finally withdrawn from the General/Contributory Provident Fund on account of such subscription.

Payment from Insurance Fund/Savings Fund :

11.1 If an 'employee' retires on attaining the age of superannuation or otherwise ceases to be in Central Government service and his service book discloses that he has been a member of the 'scheme', the Head of Office shall issue a sanction for the payment of the member's accumulation in his Savings Fund after obtaining a simple application in Form No. 4.

11.2 If an 'employee' dies while in service and his service book discloses that he was a member of the 'scheme', the Head of Office shall address the nominees/heirs of the Government servant concerned in Form No 5 to submit an application in Form No. 6, and on receipt thereof shall issue a sanction for the payment of the amount of insurance and the accumulation in the Savings Fund to him (them).

11.3 The amount payable to the nominees/heirs of an 'employee' who has the benefit of an insurance cover only will be the amount of insurance appropriate to his Group.

11.4 The amount payable to the nominees/heirs of a member of the 'scheme', who dies while in service, shall be—

- (a) the amount of appropriate insurance to which he was entitled at the time of his death ; plus
- (b) the amount due to him out of the Savings Fund for the entire period of his membership in the lowest Group ; and
- (c) the amount or amounts due to him for the additional units by which his subscription was raised on each occasion due to appointment/promotion to higher Group for the period from which the rate of subscription was raised to the date of his death.

For example, if a Group D employee, who is a member of the 'scheme', acquires a membership in Group C and Group B after 5 years and 15 years of service respectively and dies while in service after 30 years of total membership in all these Groups, his nominee or nominees shall be paid the sum of the following amounts :—

- (i) the amount of insurance of Rs. 40,000 due on a monthly subscription of Rs. 40, being a Group B employee on the date of his death ;
- (ii) the amount due from Savings Fund on a monthly subscription of Rs. 10 for 30 years.
- (iii) the amount due from Savings Fund on a monthly subscription of Rs. 10 (Rs. 20 — Rs. 10) for 25 years ; and
- (iv) the amount due from Savings Fund on a monthly subscription of Rs. 20 (Rs. 40 — Rs. 20) for 15 years.

11.5 The amount payable to the 'employee' who ceases to be in employment with the Central Government on account of resignation, retirement etc., shall be—

- (a) the amount due to him out of the Savings Fund for the entire period of his membership in the lowest Group ; and
- (b) the amount or amounts due to him for the additional units by which his subscription was raised on each occasion due to appointment/promotion to higher Group, for the period from which the rate of subscription was so raised to the date of cessation of his membership.

For example, if a Group D employee who is a member of the 'scheme' acquires a membership in Group C and Group B after 10 and 20 years of service respectively and

retires on superannuation after 30 years of total membership in all these Groups, he shall be paid the sum of the following amounts :—

- (i) the amount due to him from Savings Fund on a monthly subscription of Rs. 10 for 30 years ;
- (ii) the amount due to him from Savings Fund on a monthly subscription of Rs. 10 (Rs. 20 — Rs. 10) for 20 years ; and
- (iii) the amount due to him from Savings Fund on a monthly subscription of Rs. 20 (Rs. 40 — Rs. 20) for 10 years.

11.6 If any 'employee' dies during a month before the recovery of subscription for that month from him, his dues shall be paid after deducting the subscription.

11.7 If any 'employee' joins later on all All India Service his case shall be regulated in such manner as may be decided by the Ministry of Finance.

Withdrawals from Insurance/Savings Fund :

12.1 It will not be permissible for any member or other beneficiary of the 'scheme' to withdraw any amount out of the Insurance Fund to which he has been subscribing. The amount due from the Fund on the death of a member of the 'scheme' while in service, shall be worked out in accordance with para 11 and paid to his nominee(s) in accordance with the accounting procedure prescribed separately.

12.2 It will also not be permissible for any member of the 'scheme' to withdraw any amount of the savings Fund to which he has been subscribing. The amount due to him from the fund on his cessation of employment on account of resignation, retirement etc. shall be worked out in accordance with para 11 and paid to him or his nominee(s) in accordance with the accounting procedure prescribed separately.

Loans/advances from or against accumulations in Insurance Fund/Savings Fund :

13. No loans or advances shall be paid to any member or other beneficiary of the 'scheme' from or against his accumulations in the Insurance Fund/Savings Fund to which he has been subscribing.

Utilisation of accumulations in Insurance Fund/Savings Fund :

14. The accumulations in the Insurance Fund/Savings Fund shall be at the disposal of the Central Government. Since the 'scheme' is wholly self-financing and self-supporting, the bulk of these accumulations are proposed to be utilised for ownership housing schemes and other schemes for the benefit of the members of the 'scheme'.

Mode of notification of the 'scheme' :

15. The 'scheme' shall be notified to the 'employees' by displaying a copy thereof on the notice board or where no such notice board is provided, at a prominent place in the premises where the employees are working. A few copies of the 'scheme' may also be supplied to the recognised unions/associations of the employees.

Action on notification of the 'scheme' :

16. By the 10th of every month following the month in which the 'scheme' is notified, the Head of Office shall supply to the Drawing and Disbursing Officer names, Groups, dates of birth and dates of appointment of persons who may be appointed to any service or post under the Central Government during the preceding month and who would be eligible to be the members of the 'scheme' in terms of para 3 of the 'scheme'.

Action on the 'scheme' coming into force :

17.1 By the 10th of the month in which the 'scheme' comes into force, the Head of Office shall supply to the

Drawing and Disbursing Officer a statement indicating the name, the Group and the date of birth of every 'employee' who has been in the Central Government service on the date the 'scheme' is notified but has not opted out of the 'scheme'.

17.2 Every member of the 'scheme' shall be informed in Form No. 1 the date of his enrolment, the subscription to be deducted and the benefits to which he would be eligible. On his regular promotion from One Group to another he will be similarly informed in Form No. 2.

17.3 The option exercised by the 'employees' who are already in Central Government service on the date the 'scheme' is notified shall be in Form No. 3 and will be pasted in the service book of the individuals concerned.

Register of members :

18. The Head of Office shall ensure that Group-wise register of members is maintained in the Form No. 9 and kept up to date. This register shall be sent to the D.D.O. concerned once a year to verify whether appropriate subscriptions are being recovered from all employees who have joined the Insurance Fund or both the Insurance Fund and the Savings Fund under the 'scheme' and to record a certificate to this effect.

Nomination :

19.1 The Head of Office shall obtain from every Government servant, who is a member of the 'scheme', a nomination conferring on one or more persons, the right to receive the amount that may become payable under this 'scheme' in the event of his death before attaining the age of superannuation. In the case of 'employees' who are already in Central Government service on the date the 'scheme' is notified and who do not opt out of the 'scheme' such nomination shall be obtained simultaneously with the options obtained from others and in the case of 'employees' who join Central Government service after the date on which the 'scheme' is notified, such nomination shall be obtained along with the joining report.

19.2 If a member of the 'scheme' happens to be minor, he will be required to make nomination on his attaining the age of majority.

19.3 If a member of the 'scheme' has a family at the time of his making the nomination he shall make such nomination only in favour of a member or members of his family. For this purpose, family will have the same meaning as assigned to it in the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960.

19.4 If a member nominates more than one person under para 19.1 he should specify in the nomination the amount of share payable to each of the nominees in such a manner as to cover the whole of the amount payable under the

'scheme', falling which the amount payable under the 'scheme' shall be equally distributed among the nominees

19.5 The nomination shall be made in Form No. 7 or Form No. 8, as is appropriate in the circumstances.

19.6 A member of the 'scheme' may at any time cancel a nomination by sending a notice to the Head of Office along with a fresh nomination made in accordance with the above provision.

19.7 The nomination received from the members shall be counter-signed by the Head of Office and pasted on their service books. The Head of Office shall also make an entry in the service book that the nomination has been duly received.

The existing Insurance Scheme :

20. The existing insurance scheme introduced vide Department of Expenditure O. M. No. 60/14/77-IC dated 23rd June 1977 will continue for those 'employees' who would be in service on 1-11-1980, if they opt out of the new 'scheme', till they cease to be in employment with the Central Government on account of retirement, resignation, death, etc. As regards the other 'employees' the new 'scheme' will replace the existing insurance scheme w.e.f. 1-1-1982 and the amount which would have been due to them under the existing insurance scheme had they ceased to be in employment with the Central Government in the afternoon of the day preceding the day on which they become members of the new 'scheme', will be credited to their respective General Provident Fund accounts.

Accounting :

21. The transactions relating to the 'scheme' shall be accounted for in accordance with the procedure laid down separately.

Interpretation and clarification :

22.1 If any categories of 'employees' are not specifically classified into Group A, Group B, Group C or Group D, their classification shall be assumed in accordance with the principles laid down in this regard under the Central Civil Service (Classification Control and Appeal) Rules, 1965.

22.2 In the actual implementation of the 'scheme', if any doubt arises in regard to the interpretation of any of the provisions of this 'scheme' or if any point requires clarification, the matter may be referred to the Ministry of Finance, whose decision shall be final.

Review of the 'scheme' :

23. The working of the 'scheme' will be reviewed every three years to ensure that the 'scheme' remains self-financing and self-supporting.

TABLE

Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980

The amounts credited to the Savings Fund if the rate of interest is 10 per cent per annum

No. of years contributions paid	Net annual savings Rs. 82.50 (corresponding to Rs. 10 per month contributions)	Net annual savings Rs. 165 (corresponding to Rs. 20 per month contributions)	Net annual savings 330 Rs. (corresponding to Rs. 40 per month contributions)	Net annual savings (corresponding to Rs. 80 per month contributions)
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
5	528	1,056	2,112	4,224
10	1,380	2,760	5,520	11,040
15	2,750	5,500	11,000	22,000
20	4,958	9,916	19,832	39,664
25	8,513	17,026	34,052	68,104
30	14,239	28,478	56,956	1,13,912
35	23,460	46,920	93,840	1,87,680
40	38,311	76,622	1,53,244	3,06,488

Form No. 1

Government of India
Ministry of.....
Department/Office.....
Dated.....

MEMORANDUM

Shri. *.....a Group.....
employee has been enrolled as a member of the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 w.e.f.
His monthly subscription of Rs.
(Rupees.....) shall be deducted from his salary/wage commencing from the month of and he will be eligible to the benefits of the scheme appropriate to Group.....
w.e.f.....

(Head of Office)

To

Shri.....

*Name and designation of the employee

Form No. 2

Government of India
Ministry of.....
Department/Office.....
Dated.....

MEMORANDUM

Shri.....has been promoted on a regular basis, from Group.....to Group.....
w.e.f.....his monthly subscription for the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 shall be raised from Rs.
to Rs.from the month of.....
and he will be eligible to the benefits of the scheme appropriate to Group.....
w.e.f.....

(Head of Office)

To

Shri.....*

*Name and designation of the employee.

Form No. 3

To

(Head of Office)

Sir,

I have read and understood/I have been explained the details of the new Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980. I opt to remain outside this new 'Scheme.'

Yours faithfully,
()

Name and designation of the employee

Place :

Date :

Form No. 4

To

The.....
.....*

Subject : Application for payment of accumulation under Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980.

Sir,

I have been a member of the Central Government Employee Group Insurance Scheme, 1980 since.....**
I have retired from service after attaining the age of.....
years/I have ceased to be in employment with the Central Government w.e.f.....I was holding the post of.....before retirement/cessation of employment with the Central Government. I request that the amount due to me under the Central Government Employees Group Insurance Scheme may be paid to me.

Yours faithfully,
)

*Designation and address of the Head of Office.

**Month and the year of becoming a member of the scheme may be indicated here.

Form No. 5

No.....

Government of India
Ministry of.....
Department of.....
Office of.....
Dated.....

To

.....
.....

Subject : Payment of the amount due under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980

Dear Sir/Madam,

I am directed to state that the late Shri.....
.....has nominated you for payments of full/.....
per cent of amounts due under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980. You are therefore requested to submit an application in the enclosed form No. 6 for arranging payment.

Yours faithfully
()

*Name and address of the nominee

Form No. 6

To

*The.....
.....

Subject : Application for payment of amount due to late Shri.....under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980.

Sir,

Form No. 7

With reference to your letter No. dated.....I hereby request that the full/..... per cent of amount due to late Shri..... under the Central Government Employees Group Insurance Scheme may be paid to me.

Yours faithfully,

()

*Name and address of the Office from where Form No. 5 received.

Nomination for benefits under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980.

When the Government servant has no family and wishes to nominate one person or more than one person.

I, having no family, hereby nominate the person/persons mentioned below and confer on him/them the right to receive to the extent specified below any amount that may be sanctioned by the Central Government under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 in the event of my death while in service or which having become payable on my attaining the age of superannuation may remain unpaid at my death.

Names and addresses of nominee/nominees	Relationship with Government servant	Age	*Share of amount to be paid to each	Contingencies** on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his pre-deceasing the Government servant.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

Dated, this day of 19 at

Two witnesses to signature:

- 1.
- 2.

Signature of Government Servant

N.B. The Government servant should drawline across the blank space below his last entry to prevent the insertion of any names after he has signed.

*This column should be filled in so as to cover the whole amount that may be payable under the Insurance Scheme.

**Where a Government servant who has no family makes a nomination, he shall specify in this column that the nomination shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family.

Form No. 8

Nomination for benefits under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980

When the Government servant has a family and wishes to nominate one member or more than one member thereof.

I hereby nominate the person(s) mentioned below, who is/are member(s) of my family, and confer on his/them the right to receive to the extent specified below any amount that may be sanctioned by the Central Government under the Central Government under the Employees Group Insurance Scheme 1980 in the event of my death while in service or which having become payable on my attaining the age of superannuation may remain un-paid at my death.

Names and addresses of nominee/nominees	Relationship with Government servant	Age	*Share of amount to be paid to each	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address & relationship of the person, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his pre-deceasing the Government servant.
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					

N.B.—The Government servant should draw line across the blank space below his last entry to prevent the insertion of any names after he has signed.

Dated this day of 19 at

Signature of two witnesses :

- 1.
- 2.

Signature of Government servant

*This column should be filled in so as to cover the whole amount that may be payable under the Insurance scheme.

Form No. 9

CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES GROUP INSURANCE SCHEME, 1980

REGISTER OF MEMBERS

Group :

Section I :—Particulars of employees subscribing to the Insurance Fund only

Sl. No.	Name	Designation	Date of Birth	Date of appointment	Date of commencement of subscription	Date of promotion to higher Group/Date of transfer to other Departments	Date of death	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Section II.—Particulars of employees subscribing to both Insurance Fund and Savings Fund

Sl. No.	Name	Designation	Date of birth	Date of appointment	Date of commencement of subscription	Date of promotion to higher Group/Date of transfer to other Departments	Date of cessation of membership and reason therefor	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[No. 11024/1/81-AIS(II)]

(Smt.) CHITRA CHOPRA, Dy. Secy.